



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 वैशाख 1938 (श0)  
(सं0 पटना 376) पटना, शुक्रवार, 6 मई 2016

---

सं० 05 (बेल्ड्रॉन)-05/2015-सू०प्रा०-504  
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प  
5 मई 2016

**विषय:—** बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में कुछ पदों को पुर्ननामित, कुछ पदों के वेतन संरचना जिस पर वर्तमान में कर्मी कार्यरत है, को बदलने एवं कुछ रिक्त पदों को समाप्त करने के संबंध में।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1978 में की गई थी। निगम लगभग पच्चीस वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं यथा—टी०भी०, माईनिंग सेप्टी इक्यूपमेंट, इंटरकॉम आदि का उत्पादन कार्य करती रही है, किन्तु बाजारु स्पर्धा में पिछड़ जाने एवं बदले सामाजिक परिवेश के कारण निगम अपने उत्पादन इकाईयों को काफी समय तक चलाने में सक्षम नहीं रहा। फलस्वरूप वर्ष 2003 में राज्य सरकार को निगम के परिसमापन का निर्णय लेना पड़ा।

2. कालान्तर में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नवगठित सूचना प्रावैधिकी विभाग में हस्तान्तरित करते हुए सूचना प्रावैधिकी से संबंधित केन्द्र सरकार के परियोजना एन०ई०जी०पी० के तहत विभिन्न परियोजनाओं के संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।

3. निगम राज्य सरकार की विभिन्न आई०टी० परियोजनाओं के संचालन करने में सफल रहा है एवं लगातार पाँच वर्षों तक लाभ अर्जित करने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् के निर्णय के उपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निगम के परिसमापन संबंधी निर्णय को वर्ष 2014 में वापस लिया गया है।

4. निगम के बढ़ते एवं परिवर्तित क्रिया—कलापों एवं कर्मियों के सेवानिवृत्ति के वजह से निगम में नई नियुक्ति की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, किन्तु पूर्व के जो पद स्वीकृत है वे सभी वर्तमान क्रियाकलाप के अनुरूप नहीं है, जिसके वजह से नई नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है। फलस्वरूप परियोजनाओं के सुचारु रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन में भी कठिनाई हो रही है। इसलिए निगम के द्वारा पूर्व के स्वीकृत संरचना के पुर्नगठन की आवश्यकता महसूस की गई है।

5. अतः सरकार द्वारा अनुमोदनोपरान्त बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में कुछ पदों को पुर्ननामित, कुछ पदों के वेतन संरचना जिस पर वर्तमान में कर्मी कार्यरत हैं, को बदलने एवं कुछ रिक्त पदों को समाप्त किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

(क) वर्तमान संरचना के वैसे पद जिसकी भविष्य में आवश्यकता है, किंतु पदनाम, नियुक्ति प्रक्रिया एवं वेतनमान में बदलाव की गई है ।

क्र० सं०	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत बल	उप निगम से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत	रिक्त पद	परिवर्तित वेतन एवं नियुक्ति का प्रकार	परिवर्तित पदनाम/ अभियुक्ति
1.	प्रबंध निदेशक	18400-22400	1	1	-	-	राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर	कोई परिवर्तन नहीं।
2.	महाप्रबंधक	12000-16500	1	1	-	-	—वही—	कोई परिवर्तन नहीं।
3.	प्रबंधक वित्त	10000-15200	1	-	-	1	नियत वेतन ₹ 60—70000/— पर खुले बाजार से	मुख्य लेखा पदाधिकारी
4.	प्रबंधक पी०आई०	10000-15200	1	1	-	-	—वही—	कोई परिवर्तन नहीं।
5.	प्रबंधक बिजनेस डेवलपमेंट	10000-15200	1	-	-	1	—वही—	प्रबंधक पी०एम०यू०/ पी०एम०यू० (आई०पी०आर०)
6.	प्रबंधक प्रशासन	10000-15200	1	-	-	1	—वही—	
7.	प्रबंधक विपणन	10000-15200	1	-	-	1	—वही—	
8.	प्रबंधक तकनीकी कोर्डिनेशन	10000-15200	1	-	-	1	—वही—	
9.	उप निदेशक	10000-15200	2	-	-	2	—वही—	
10.	कम्पनी सचिव	10000-15200	1	1	-	-	नियत वेतन ₹ 40—45000/— पर खुले बाजार से	कोई परिवर्तन नहीं।
11.	उप प्रबंधक (पी० आई०)	8000-13500	1	-	-	1	नियत वेतन ₹ 30—40000/— पर खुले बाजार से	कार्यक्रम/ परियोजना कार्यपालक
12.	उप प्रबंधक (विपणन)	8000-13500	1	-	-	1	—वही—	
13.	उप प्रबंधक (बिजनेस डेवलपमेंट)	8000-13500	1	-	-	1	—वही—	
14.	उप प्रबंधक (तकनीकी कोर्डिनेशन)	8000-13500	1	-	-	1	—वही—	
15.	उप प्रबंधक (कौस्ट एकाउन्टेन्ट)	8000-13500	1	-	-	1	—वही—	
16.	सहायक निदेशक	8000-13500	2	-	-	2	—वही—	
17.	विधि सहायक	8000-13500	1	-	-	1	—वही—	
18.	सहायक प्रबंधक	6500-10500	1	1	-	-	—वही—	

क्र० स०	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	कुल स्वीकृत पद	बल कार्यरत	उप निगम से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत	रिक्त पद	परिवर्तित वेतन एवं नियुक्ति का प्रकार	परिवर्तित पदनाम/ अभियुक्ति
19.	सहायक प्रबंधक (इलेक्ट्रीकल)	6500- 10500	1	-	-	1	-वही-	
20.	सहायक प्रबंधक (लेखा)	6500- 10500	1	-	-	1	-वही-	
21.	तकनीकी पदाधिकारी	6500- 10500	4	2	2	-	-वही-	
22.	सहायक प्रबंधक	6500- 10500	2	2	-	-	-वही-	कोई परिवर्तन नहीं।
23.	सहायक प्रबंधक (सिविल)	6500- 10500	1	1	-	-	-वही-	कोई परिवर्तन नहीं।
24.	सहायक प्रबंधक (मैकेनिकल)	6500- 10500	1	1	-	-	-वही-	सहायक प्रबंधक (मैनपावर)
25.	वरीय आप्त सचिव	6500- 10500	1	-	-	1	नियत वेतन ₹ 20-25000/- पर खुले बाजार से	प्रबंध निदेशक के निजी सहायक
26.	आंतरिक अंकेक्षक	5500- 9000	2	1	-	1	नियत वेतन ₹ 35-40000/- पर खुले बाजार से	लेखा पदाधिकारी
27.	सहायक	5500- 9000	4	-	-	4	नियत वेतन ₹ 20-25000/- पर खुले बाजार से	टंकक/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
28.	लेखा सहायक	5000- 8000	4	1	-	3	नियत वेतन ₹ 15-20000/- पर खुले बाजार से	कोई परिवर्तन नहीं।
29.	टेकनीशियन	4500- 7000	10	6	-	4	नियत वेतन ₹ 20-25000/- पर खुले बाजार से	कार्यालय सहायक/ सहायक
30.	स्टेनोग्राफर	4500- 7000	15	2	-	13	-वही-	टंकक/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
31.	रिशेप्सनिष्ट	4000- 6000	1	-	-	1	नियत वेतन ₹ 15-20000/- पर खुले बाजार से	कोई परिवर्तन नहीं।
32.	भंडारपाल	4000- 6000	2	1	-	1	नियत वेतन ₹ 15-20000/- पर खुले बाजार से	कोई परिवर्तन नहीं।
33.	टंकक	4000- 6000	8	6	2	-	नियत वेतन ₹ 20-25000/- पर खुले बाजार से	टंकक/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
34.	सहायक तकनीशियन	4000- 6000	3	3	-	-	-वही-	टंकक/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
35.	ड्राईवर	3050- 4590	3	2	1	-	नियत वेतन ₹ 12-15000/- पर खुले बाजार से	कोई परिवर्तन नहीं।

क्र० सं०	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत बल	उप निगम से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रिक्त पद	परिवर्तित वेतन एवं नियुक्ति का प्रकार	परिवर्तित पदनाम/ अभियुक्ति	
36.	पियून	2550-3200	6	5	-	1	नियत वेतन ₹ 10-12000/- पर खुले बाजार से	कोई परिवर्तन नहीं।
37.	वर्ग-IV	2550-3200	15	5	7	3	-वही-	आई०टी० बॉय/गर्ल्स
कुल			104	43	12	49		

(ख) वर्तमान संरचना के वैसे पद जिस पर वर्तमान में कर्मी कार्यरत हैं, किंतु भविष्य में उसकी आवश्यकता नहीं है एवं कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत पद स्वतः समाप्त हो जायेगी :-

क्र० सं०	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद	अभियुक्ति
1.	प्रशाखा पदाधिकारी	6500-10500	2	1	1	"ख" में अंकित सभी रिक्त 15 पद समाप्त एवं वैसे 15 पद जिस पर वर्तमान में कर्मी कार्यरत हैं, मरणशील पद घोषित।
2.	अंकेक्षक/लेखापाल	5500-9000	2	2	0	
3.	लाइब्रेरियन	4500-7000	1	1	0	
4.	दिनचर्या लिपिक/लिपिक सह टंकक/असेम्बली ऑपरेटर	4000-6000	14	4	10	
5.	कुशल कामगार	3050-4590	5	3	2	
6.	पियून/गार्ड/पियून-सह-चौकीदार	2550-3200	6	4	2	
कुल			30	15	15	

(ग) वर्तमान संरचना के वैसे पद जो वर्तमान में रिक्त है, जिसे समाप्त किया जाता है:-

क्र० सं०	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद	अभियुक्ति
1.	निदेशक	12000-16500	1	1	"ग" में अंकित सभी रिक्त 19 पद समाप्त।
2.	परियोजना प्रबंधक	6500-10500	1	1	
3.	कनीय अभियंता/सूचना सह जन सम्पर्क पदाधिकारी/लेखापाल/वाणिज्यिक लेखापाल	5500-9000	4	4	
4.	वरीय तकनीशियन/फोरमैन/तकनीकी पर्यवेक्षक	5000-8000	7	7	
5.	कैशियर/ड्राफ्टमैन	4500-7000	2	2	
6.	कैशियर/स्टोरकीपर/मार्केटिंग सेल्स एक्जीक्यूटिव	4000-6000	3	3	
7.	ड्राइवर	3050-4590	1	1	
कुल			19	19	

6. उर्पयुक्त पदों पर होने वाले व्यय का वहन बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा बजट (राशि) का उपबंध नहीं कराया जायेगा।

7. संकल्प के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर दिनांक 28.04.2016 को मंत्रिपरिषद् में मद सं० 09 पर स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राहुल सिंह,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 376-571+500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>